



केन्द्रीय कार्यालय / Corporate Centre

Ref. No.: 01: SEC: LA-1

Dated: 24/07/2023

To

General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Manager
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra(E),
Mumbai - 400051

BSE Scrip Code: 532555

NSE Symbol: NTPC

Sub.: Compliance under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of notice published in newspapers on 24th July, 2023 in respect of 47th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 30th August 2023 through video conferencing / other audio visual means and Record date.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Arun Kumar)
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

Lexus set to foray into used car biz

To roll out first EV in India by 2025

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 23

LUXURY CARMAKER LEXUS from next year is looking to foray into the used car business in India, having now completed six years in the market, according to a top company official.

The Japanese carmaker, which currently sells its product range through 23 touch points, aims to transition some of the sales outlets to also cater to the pre-owned car vertical.

Known for its self-charging hybrid cars, Lexus is now gearing up to roll out its first electric model in the country by 2025.

In an interaction with PTI, Lexus India President Naveen Soni said the automaker is now seriously considering the introduction of a structured pre-owned car programme.

He noted that the company will initiate the programme in select outlets after taking into account the business viability of the dealer partner.

"So I think very soon, by the third quarter or maybe next year beginning, I should say," he stated when asked about the timeframe the company was looking to get into the used car segment.

Soni stated that the automaker is studying the market very keenly. "For us, the starting point would be cities where there is a sizable vehicle park," he added.

Soni noted that the company started selling vehicles in the country six years ago and there may be customers now who may like to sell their cars and upgrade to a new set of wheels.

PRESS TRUST OF INDIA

HINDUSTAN ZINC LTD (HZL)

is keen to acquire lithium

assets as and when they are put

on the block for auctions, CEO

5.9 million tonnes have been

identified in Salal-Haimna

areas of Reasi district in

Jammu and Kashmir (J&K) for

the first time in India.

Lithium reserves of about

New Delhi, July 23

Arun Mishra said.



TO BE STARTED AT SELECT OUTLETS

■ Lexus India President Naveen Soni said they will launch the plan in select outlets after taking into account the business viability of the dealer partner.

automaker is studying the market very keenly. "For us, the starting point would be cities where there is a sizable vehicle park," he added.

■ Soni stated that the

"So I think the time is ripe for at least some centres to transition into standalone used car outlets," he stated.

The company is also considering giving a short buyback scheme so that the consumer gets confidence, Soni said.

When asked about the company's electric vehicle strategy, he noted that the company had brought in a few vehicles last year to test them in the diverse climatic conditions as well as get customer feedback.

"So we've got very good information about the behaviour pattern in these markets, like summer conditions, testing conditions, desert conditions, all that has gone back to Japan. Hopefully, by 2025 we should have our first EV product coming to this country," Soni said.

Lexus, which is the luxury car arm of Japanese auto major Toyota, has been mandated to take the front-runner role within the group in electric technology.

Hindustan Zinc keen to take

a transaction advisor.

Auctions of the said reserves be strategic interest, Mishra

"Absolutely.Why not?" Hin-

dustan Zinc is already in the

base metal (sector). Whatever

lithium asset will come it will

part in lithium auctions: CEO

are likely to

be held in

December.

administra-

tion is also

process of

appointing

J&K

the

The

Lexus aims to go fully electric by 2035.

Commenting on the sales outlook, Soni noted that the company is on the verge of surpassing its last year's volumes by July-end this year.

He noted that 2023 would turn out to be the best year for the luxury car segment in India, surpassing the peak achieved in 2018.

"By the end of July, we would have done the same business as we did the entire last year...definitely will overtake the previous highest...I think we should do between 42,000 to 45,000 as an industry this year," Soni said.

The luxury car industry in India was peaking in 2018 with around 40,000 units a year but came down to 20,000 units in the next two years due to the Covid-19 related disruptions.

He noted that the company has increased its reach across the country by enhancing its sales network to 23 from four outlets in four cities a few years ago.

told PTI in reply to a question

on plans of acquiring lithium

base metals are our (com-

pany's) area of interest and

lithium being one of them, we

look forward to exploring the

opportunities as such metals

are going to be the future

which will drive the new

world."Therefore, HZL is open

to participate in auctions for

the lithium reserves, he

The CEO further said, "As

reserves.

Kia India aims for 10% sales growth

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 23

AUTOMAKER KIA INDIA expects its sales to grow by 8-10% this year as compared with 2022 on the back of improved chip supplies and introduction of the updated Seltos in the market, according to a senior company official.

The South Korean carmaker, which sells models like Carens, Sonet and Seltos in the Indian market, sold a total of 3.4 lakh units in the domestic and export markets

"So last year our domestic sales were about 2.54 lakh units while exports stood at around 80,000 units. So we did about 3.34 lakh units overall. So this year we are looking at about 8-10% growth," Kia India National Head (Sales and Marketing) Hardeep S Brartold PTI in an interaction.

He noted that the company has outpaced the overall passenger industry growth in the first half of the year and expects to do the same in the second half as well.

A TATA Enterprise

TRF LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L74210JH1962PLC000700 Regd. Office: 11, Station Road, Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007

Tel: +91 657 2345727, Email: comp_sec@trf.co.in, Website: www.trf.co.in PUBLIC NOTICE - 60" ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 60" Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of Members of TRF Limited ('the Company') will be held on Thursday, August 17, 2023 at 11:00 a.m. (IST), through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in Notice convening the AGM. The VC/OAVM facility is provided by the National Securities Depositories Limited ('NSDL'). This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with notifications and General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'). Further, SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode

The Notice of the AGM along with the Annual Report and Annual Accounts for the Financial Year 2022-23 ('Annual Report') of the Company will be available on the website of the Company at www.trf.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM along with the Annual Report will also be available on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY. The detailed instructions with respect to such participation will be provided in the Notice convening the Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent ('RTA') / Depository Participants ('DPs')/Depositories.

Members who have not registered their email addresses with the Company/RTA are requested to follow the process mentioned below and register their e-mail addresses no later than 3:00 p.m. (IST) on Thursday, August 10, 2023, so as to receive electronically (a) The Notice of AGM and Annual Report; and (b) login ID and password for e-Voting:

Process for registering e-mail address

 a) Visit the link https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html b) Select the name of the Company 'TRF Limited' from drop-down list,

c) Enter details in respective fields such as DP ID and client ID (If shares held in electronic form)/Folio no. and Certificate no. (If shares held in physical form), Shareholder name, PAN, mobile no. and e-mail id.

 d) System will generate and send OTP on mobile no. and e-mail id. e) Enter OTP received on mobile no, and e-mail and submit.

For permanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their DPs. Members holding shares in physical form, are requested to visit https://tcplindia.co.in/client-downloads.html to know more about registration process.

Voting Information

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as may be set forth in the Notice of the AGM through e-voting system of NSDL

The remote e-voting details are:

Remote e-Voting start date and time Monday, August 14, 2023 at 9.00 a.m. (IST) Remote e-Voting end date and time Wednesday, August 16, 2023 at 5.00 p.m. (IST)

Detailed instructions pertaining to (a) Remote e-Voting before the AGM, (b) e-Voting during the AGM and (c) attending the AGM through VC/OAVM will be provided in "Notes" section to the Notice of the AGM. TRF Limited

Prasun Banerjee July 22, 2023 Company Secretary and Compliance Officer Jamshedpur ACS: 29791

'Remote working preferred by employees'

AS REMOTE WORKING and flexible work arrangements take precedence over salary for a large number of jobseekers, experts see this as an opportunity to attract and retain talent.

According to a survey titled "The Job Search Process: A Look from the Inside Out', two thirds

Company / depository participant/depository.

of respondents prioritise hybrid or remote working engagements. Also, 71% of these respondents feel the freedom to work from home, setting flexible hours and taking breaks as needed were important factors in their job search.

The survey based on responses collected from 1,810 individuals, including 561 employers and 1,249 jobseekers, was carried out by jobsite Indeed India.

While 63% of the jobseeker respondents registered their preference for hybrid working 51% of companies also reflected offering such flexibility in their operations. — PTI

एनदीपीसी NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)

CIN: L40101DL1975GOI007966 Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003 Tel. no.: 011-24360959 Fax: 011-24360241, Email: csntpc@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

Intimation regarding 47th Annual General Meeting (AGM) and Record Date for payment of Final Dividend

It is hereby informed that the 47th AGM of NTPC Limited will be held on Wednesday, 30th August, 2023 at 10:30 A.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in line with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and other relevant circulars including circular dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'). In line with aforesaid MCA

Notice and Annual Report 2022-23 will also be made available on the Company's website www.ntpc.co.in and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Circulars and SEBI circular dated 5th January, 2023, Annual Report along with notice of 47th AGM will be

sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the

Manner of casting vote(s) through e-voting: In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 47th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting during the AGM. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means. Shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the meeting may participate in the AGM by following instructions given in the Notice of AGM.

Manner of registering / updating email ID & Bank Details: Shareholders who have not registered their email IDs and Bank Account details are hereby requested to register the same in following manner:

ntpc@beetalfinancial.com with following details / documents:

For shareholders Please send a request letter signed by the first holder with following details to the RTA of the Company by post at M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at 3rd Floor, Beetal House, 99, Madangir, Delhi-110062 or through email at

	For updating email ID	For updating Bank account			
	Folio No. Name of Shareholder Self-attested copy PAN Self attested copy of AADHAR/Driving License/Voter Card/Passport (Signature should match with the specimen signature available with the Company/RTA)	Account number, Name of the Bank & Branch, MICR Code/			
For shareholders holding shares in Demat Mode					

Record Date for Payment of Final Dividend

Notice is hereby given that the Company has fixed Friday, 11th August, 2023 as the Record date for the purpose of payment of final dividend for the financial year 2022-23, if approved by the Shareholders in the upcoming Annual General Meeting of the Company.

TDS on Dividend:

Shareholders may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act") as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 is taxable in the hands of the Shareholders. The Company is, therefore, required to deduct tax at source at the time of payment of dividend to the Shareholders. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Shareholders are requested to submit necessary forms/documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act up to 18th August 2023. The necessary documents, as applicable, are required to be emailed at tdsdiv@ntpc.co.in and dividend.ntpc@taxcpc.com, to enable the Company to determine the appropriate TDS rates. For the detailed process, please visit website of the Company https://www.ntpc.co.in/investor-updates/dividend-tds-communication

In case of any further assistance in this regard, Shareholders may contact RTA or Company at above S mentioned email/address.

For NTPC Limited

Date: 22.07.2023 Place: New Delhi

Arun Kumar Company Secretary **Leading the Power Sector**

Warehousing leasing down 12% across five cities: Colliers

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 23

LEASING OF INDUSTRIAL & warehousing spaces during April-June fell 12% year-on-year to 4 million square feet area across five major cities mainly due to lower demand in Delhi-NCR and Chennai, according to Colliers. Real estate consultant Colliers India released

its India industrial and warehousing market snapshot for the April-June quarter of this calendar year, showing the

Colliers India report showed the gross leasing of industrial and warein April-June housing space in Pune across five cities fell 44% from the previous

Real estate

consultant

quarter.

gross leasing in April-June across five cities fell 44% from the previous quarter. As per the data, leasing

region rose 15% to 1 Million square feet during April-June period. Mumbai also saw a 12% increase in demand to 9 lakh (0.9 million)

square feet in the second quarter of this calendar year. The leasing in Bengaluru went up 17% to 7 lakh (0.7 million) square feet during April-June. However, the demand remained subdued in

Chennai and Delhi-NCR. The absorption of industrial and warehousing space in Delhi-NCR fell sharply by 49% to 7 lakh (0.7 million) square feet, while the demand dropped 28 per cent in Chennai to 7 lakh (0.7 million) square feet during the quarter ended June.

Third party logistics (3PL) players were major drivers of demand with a share of 29% in total leasing, while engineering and e-commerce firms contributed 14% each in the overall leasing across five cities.

In terms of new supply, it declined 11% yearon-year to 4.9 million square feet during the second quarter of 2023.

NOTICE GRASIM INDUSTRIES LIMITED Registered Office: P.O. Birlagram, District-Ujjain, Nagda (Madhya Pradesh)-456331 Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders/the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) Certificate No. of Shares Distinctive Nos. Name of From MRS. REKHA K. PANDYA 445450275 3098730 1255 445449021 The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. An erson(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) wit the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates,



AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES aggregate amount of ₹19,000 crore (Face Value) State/UT Type of borrowing be raised (in years) auction (Greenshoe) option (₹ cr) Andhra Pradesh 1000 12 Yield based 2 Bihar 2000 Yield based 100 3 Goa Yield based 4 Kerala 1000 18 Yield based 5 Maharashtra 2000 Reissue of 7.32% Maharashtra SGS Price based 2032 issued on May 31, 2023 6 Manipur 150 Yield based Reissue of 7.47% Price based 500 Punjab SGS 2034 issued on July 05, 2023 7 Punjab Reissue of 7.43% Punjab 250 Price based SGS 2048 issued on July 05, 2023 8 Rajasthan 1500 Yield based 1000 Yield based 18 9 Tamil Nadu 2000 10 Yield based 3000 Yield based 3000 10 Uttar Pradesh 10 Yield based 11 West Bengal 1500 18 Yield based 19,000 Total

(E-Kuber) in multiple-price format on July 25, 2023 (Tuesday). Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretaildirect.org.in). For further details please refer to RBI press release dated July 21, 2023 (Friday) on RBI website www.rbi.org.in. "Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution

LAND

3P LAND HOLDINGS LIMITED

CIN: L74999MH1999PLC013394

Regd.Office: Thergaon, Pune 411 033. Tel:+91-20-40773333, Fax:91-20-40773388. E-mail:admin@3pland.com, Website: www.3pland.com

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

(? In lakhs unless stated otherwise)

			Standalo	ne Results		Consolidated Results			
Sr.	Particulars	Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
No.		30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022	See Individual Con-	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	31.03.2023 (Audited)
			(Unaudited)			(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	47.02	43.29	46.72	252.42	47.02	43.29	46.72	252.42
2	Profit/(loss) before exceptional item share of profit/(Loss) of Associate and tax	34.72	31.33	36.04	204.50	34.72	31.33	36.04	204.50
3	Net Profit / (Loss) for the period after exceptional item, share of profit / (Loss) of Associate but before tax	34.72	31.33	36.04	204.50	34.72	31.33	36.04	204.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	25.95	23.93	26.97	153.52	25.95	23.93	26.97	153.52
5	Other Comprehensive Income (net of tax)	449.36	-360.45	-1,284.39	-221.07	449.36	-360.45	-1,284.39	-221.07
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	475.31	-336.52	-1,257.42	-67.55	475.31	-336.52	-1,257.42	-67.55
7	Equity Share Capital (face value ₹ 2/-per share)	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
8	Earnings per share (of ₹ 2/- each) Basic & Diluted.(₹.)	0.14	0.13	0.15	0.85	0.14	0.13	0.15	0.85

Place: Mumbai

Date : 22" July, 2023

 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 22" July, 2023. 2) The Limited Review under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 has been carried out by Statutory

3) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) as amended prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30" June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (Website :www.3pland.com).

New Delhi

5) Previous periods amounts have been regrouped wherever considered nesessary to conform to current period's presentation.

On behalf of the Board of Directors

Chairman

G.N.Jajodia

financialexp.epam.in







GUJARAT CONFIDENTIAL

MUNICIPAL GARDENS

AT A recent event to hand over cheques worth Rs 1,512 crore to various municipal corporations and municipalities in the state for carrying out developmental works, Chief Minister Bhupendra Patel stated that each and every municipality should have at least one garden. When he inquired about the number of gardens in various municipalities across the state, Principal Secretary Ashwani Kumar informed him about the initiative to develop urban forests. However, the CM urged for proposals from municipalities about the places where gardens could be developed. Notably, the CM started his political journey as a member of the Memnagar municipality in

Scientific survey of Gyanvapi mosque begins today: Officials

EXPRESS NEWS SERVICE LUCKNOW, JULY 23

THE COURT-ORDERED survey by the Archaeological Survey of India (ASI) of the Gyanvapi mosque complex located next to the Kashi Vishwanath temple in Varanasi will start on Monday to determine "whether the present structure was constructed over a pre-existing structure of a Hindu temple", officials said.

"We have got information from the ASI that the work on the survey will start from tomorrow (Monday)," Varanasi District Magistrate S Rajalingam said.

An ASI team arrived in the city on Sunday to conduct the survey, news agency PTI reported. It also quoted advocate of the Hindu side, Madan Mohan Yadav, saying that the team will start the survey around 7 am.

On Friday, a Varanasi court had issued directions for a "scientific investigation/survey/excavation" of the mosque premises by the ASI.

In his order, District and Sessions Judge Ajaya Krishna Vishvesha directed the ASI to "conduct ground penetrating radar (GPR) survey just below the three domes of the building in question and conduct excavation, if required".

Instructing that the survey proceedings be videographed, the judge said a report must be submitted to the court before August 4. The survey will ex-

clude the 'wuzukhana' area which was sealed last year on the Supreme Court's orders after Hindu litigants pointed to the presence of what they claimed is a Shivling while Muslim liti-

gants maintaining it is a fountain. The court had allowed an apouter wall of the mosque com-

rected to conduct a detailed scientific investigation by using GPR survey, excavation, dating method and other modern techniques of the present structure to find out... whether the same has been constructed over a preexisting structure of a Hindu

construction of the western wall through scientific methods. The court asked the ASI to "prepare a list of all the artefacts in the building specifying their contents and carry out scientific investigation and undertake dating exercises to find out the age and nature of construction". The Hindu litigants contend that the mosque was built on the site of the original Kashi Vishwanath

The Muslim litigants, how-

plication by four Hindu woman petitioners, who had earlier filed a suit seeking the right to worship Maa Shringar Gauri on the

"The Director of ASI is also di-

temple," the order stated. It also directed the ASI to investigate the age and nature of of the building in question

temple

ever, maintain that the mosque was built on Waqf premises, (WITH PTI INPUTS)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD, DIVISION BHILWARA

IIB CODE: PWD2324A1701 -: Notice Inviting Bid 12/2023-24 :-

Bids for Road works are invited from interested bidders upto 6.00 PM Dated 24.07.2023. Other particulars of the bid may be visited on the procuremen portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the State. The approximate values of the procurement is Rs. 259.05 Lacs, (Total of 1 Bid). UBN Code:- PWD2324WSOB08123

Sd/- (Narendra Chaudhary) **Executive Engine PWD Division Bhilwar** Mob. No. 99835-29510



KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD

(A Government of India Undertaking) NOTICE INVITING E-TENDER

On behalf of Konkan Railway Corporation Ltd., Regional Electrical Engineer Shirwad, Karwar, is inviting E-Tender for the following work: Sealed Bids are invited from experienced contractors for Reduction of man power by automation of tunnel ventilation systems of Karwar and Barcem duly shifting to Karbude ventilation tunnel Control room. (Tender No.KR-KW-EL-T-6-2023 Date: 24/07/2023). Cost of work: ₹35.17 lakh (excluding GST). Last Date & Time for Submission of Bid: 14/08/2023 up to 15:00 hrs. For further details please visit: www.ireps.gov.in

RAJASTHAN POLICE STATE CRIME RECORDS BUREAU No.-F-GBV-15(1)SCRB/2020/00022/E-00274 Date:- 14.07.2023

Notice Inviting Bid				
Rajasthan Police invites bid from eligible bidders for the following item:				
Item	Estimates Cost (In Rs.)			
Replacement of UPS Batteries and buy bac	k of old 7,49,45,520/-			
batteries in SCRB.				

nterested bidders may visit & download RFP comprising of details from

https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in http://police.rajasthan.gov.in portals from 14-07-2023 6:00 PM and submi the same till 16-08-2023 at 02.00 PM, and Open tender on same dat (Sharat Kaviraj) 16-08-2023 at 4.00 PM. UBN NO. CRB2324GLOB00003 Inspector General of Police SCRB, Rajasthan, Jaipur DIPR/C/10471/2023

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण वृत्त-उदयपुर

-मेल : SERURALUDAIPUR.PWD@RAJASTHAN.GOV.IN क्रमांक :- 1048

निविदा सचना संख्या 02/2023-24 NIBCode PWD2324A1578

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से ग्रामीण वृत उदयपुर के अधीन खण्ड कोटड़ा के अन्तर्गत सुदृढीकरण कार्य नालवा से डैया सड़क किमी 0/0 से 18 /500 के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनं किन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूरसंचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त पात्र श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष से पांच वर्ष की गारण्टी अवधि सहित निम्न कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "www.dipr.rajasthan.gov.in"

"http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा "http://sppp.rajasthan.gov.in" पर देख जा सकता है। इच्छ्क संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है। निविदा अपलोड करने की तारीख 12.07.2023 से 31.07.2023 को सायं 6.00 बजे तक।

UBN is: PWD2324WLOB07706

हस्ता./-(अनिल कुमार गर्ग) अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग Chandy's kin will contest from his Assembly seat: Congress

Late Cong leader Oommen Chandy

EXPRESS NEWS SERVICE THIRUVANANTHAPURAM,

JULY 23

THE CONGRESS in Kerala Sunday announced that a member from the family of the late Oommen Chandy would be its candidate for the ensuing byelection at Puthuppally, the Assembly segment represented by the Congress veteran for the last 53 years.

Chandy, 79, died last Tuesday after a prolonged battle against cancer. The state had bid an emotional farewell to the former chief minister, who was laid to rest at Puthuppally in Kottayam. Congress has begun informal deliberations on successor at Chandy's Puthuppally.

Kerala Congress unit chief K Sudhakaran told reporters in Kochi that the candidate for the by-election would be from Chandy's family. "The family can suggest the name. The familv has to arrive at a decision on whether the son or the daughter should become the candidate. The party will attest the decision of the family. There will not be a candidate from

outside the family," he said. Congress leader Cherian Philip, who had been closely associated with Chandy, backed his son in a Facebook post.



PERSONAL

Rajyog Astro (On The Spot Result) Love Problem, Business, Husband-Wife Dispute, Relationship, Love Marriage.Divorce.Court Case Property Dispute, Depression Family/Enemy/Money Problem,On Call Solution

0010150090-

IMPORTANT Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible

MOTILAL OSWAL

dry armed to the responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manne

> **Motilal Oswal Home Finance Limited** Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani R Opp. Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel: (022) 47189999

Website: www.motilaloswalhf.com Email: hfguery@motilaloswal.com POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Motifal Oswal Home Finance Limited (Formally known as Aspire Home Finance Corporation Ltd). under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s.

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of **Motial Oswal Home Finance Limited**, for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr No.	Loan Agreement No. / Name of the Borrower/ Co Borrower/Guarantor	Demand Notice Date & Amount	Date of possession Taken	Description of the Property/ies Mortgaged
1	LXHIM00415-160011198 Anilbhai Gautambhai Vaghela & Hareshbhai Gautambhai Vaghela	28-01-2021 For RS 1479103	18-Jul-23	PLOT NO - 170, OF S.NO 1 PAIKI 171 , AT - VIRPUR, HIMMATNAGAR, SABARKANTHA, GUJARAT - 383205

Place: Gujarat Date: 24.07.2023

Place: Vadodara, Gujarata.

Authorized Officer

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No. 2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001. **DEMAND NOTICE**

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") he undersigned being the Authorized Officer of **Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.** (the Secured Creditor) under th Act and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) of the Act read with Rule 3 issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the ct, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receip of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the Demand Notice(s), therefore the ervice of notice is being affected by affixation and publication as per Rules. The contents of Demand Notice(s) are extracted herein below:

n. Name & Address of the Borrower/s & Co-Borrower/s	Loan Amt.	Dt. of Demand Notice & O/s. Amt.	Description of the Property / Secured Asset
Loan A/c. No(s).: X0HLBA000002470729 1. Kuldeepkumar Styaprakash Varma 2. Durgaben Kuldeepkumar Varma 1. Both are R/o.: D-5, Ram Nagarnavayard, Vadodara, Gujara-390 002; Also at :- Flat No. D-101, Tower-D, 1 st Floor, Harivandan Resi, Undera Vadodara-391 330, Gujarat.	F 12,	₹ 20,03,911/- (Rs. Twenty Lakhs Three Thousand Nine Hundred Eleven Only)	An immovable Residential property being Block No. 38: Adm. area 4856.00, Paikee Plot No. 3, 4, 5, 6, 7 adm. area 833.14 sq. mt. in which it is constructed in the name an style of HARIVANDAN RESIDENCY paikee first floor, Flat No D-101 adm. area 60.40 sq. mt. super built up of moje Undera Tal. and Dist. Vadodara, Registration District Vadodara, Sub District Vadodara, Gujarat.

vithin 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expens till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. is a secure creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property / properties being the secure asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, The ecured Creditor shall be entitled to exercise all the rights under section 13(4) of the Act to take possession of the secured assets(s) including ut not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder an ealize payment. The Secured Creditor is also empowered to ATTACH AND / OR SEAL the secured assets(s) before enforcing the right to salo or transfer. Subsequent to the Sale of the secured assets(s), the Secured Creditor also has a right to initiate separate legal proceedings to ecover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the Secured Creditor. Thi medy is in addition and independent of all the other remedies available to the Secured Creditor under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and furthe

The borrower(s) are hereby advised to comply with the Demand Notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabov

to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained / prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) o transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prio written consent of the Secured Creditor and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. Th copy of the Demand Notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the ndersigned on any working day during normal office hours.

For Cholamandalam Investment and Finance Company Limited



Rajkot's New

AIRPORT

Hirasar Greenfield Airport is set to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi July 27. The PM had laid the foundation stone for the airport in October 2017.

website www.nmu.ac.in

n SBI

Bodwad Education Society Art's Commerce and Science College, Bodwad Tal. Bodwad, Dist Jalgaon-425310

WANTED

Applications are invited for the post of **Principal** (Isolated post, Granted, Unreserved) from eligible

candidates up-to (15) fifteen days from the publication of

this Advertisement. The details of the educational

qualifications, pay scales, terms & conditions for the post of

Principal are available at the college website www.acsbodwadcollege.org & KBCNM University

Residential Open Plot at Bopal, Ahmedabad - Block No. 182 of Mouje Bopal,

Plot No. F-01-34, Sector F-01, in Sterling City, Near Shiv Ashish School, Bopa

Total Area: 486.62 Sq.Mts. Property Location: Latitude 23°2′27.69"N Longitude: 72°28′6.97"E

RESERVE PRICE: Rs. 3.49 Crore

Date of Auction: 10.08.2023, Date of public inspection: 29.07.2023

For more details, please visit https://ibapi.in or https://bank.sbi/

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

Contact: (1) Authorised Officer: Kamal Kumar Garg (M.: 9799053400)

(2) Case officer: S Naresh Babu (M.: 9440780127)

https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others

Ahmedabad-380058. **Property ID No.: SBIN200006194214**

STATE BANK OF INDIA

Stressed Assets Management Branch, Ahmedabad-380 Ph.: (079) 2658 1081/1206, E-mail : sbi.04199@sbi.co.in

Sd/-Shri. Mithulalji Agrawal



Baghel promises free bus travel for students if Cong voted back in Chhattisgarh

Raipur: Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel Sunday promised free bus travel for students if the Congress is voted back to power in the upcoming Assembly elections.

During the 'Bhet Mulakat' interactive session with the youth at Balbir Singh Juneja Indoor Stadium in Raipur, a student named Devendra Satnami from Kasdol requested free bus travel for college students. Baghel replied that it was a good suggestion and would definitely include it in the Congress manifesto for the Assembly elections later this year.

Around 11,000 students from the Raipur region, including the Dhamtari, Gariaband, Raipur, Balodabazar-Bhatpara and Mahasamund districts, participated in the session. Such interactions will also take place in the Bastar, Surguja, Durg and Bilaspur regions, covering 28 districts.

The main demands were to get more teachers, postgraduate courses and facilities. A medical student said she was happy to see the increase in MBBS seats but requested a similar rise in the number of postgraduate medical seats.

Like MBBS students, dental students will also get a chance to serve in rural areas for two years, Baghel said when a student raised the demand. ENS

Uttar Gujarat Vij Company Limited CIN - U40102GJ2003SGC042906 Regd. & Corporate Office- Visnagar Road, Mehsana-384001.

9800, invites applications from professionals for the post of:

Toll free number 19121 OR 1800233155335 www.ugvcl.com **Empower your Career with UGVCL**

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL), a subsidiary Company of GUVNL (erstwhile GEB), an ISO-9001:2008 Company having consumer-base of around 37 Lakhs, Annual Turnover of Rs. 15,000 Crores (approx.) and manpower strength of more than

Name of Post	Vacant	Educational	Experience	Pay-Scale
		Qualification		
General Manager	01 (UR)	CA/ICWA	20 years post-	Rs.1,48,800-
(Finance & Accounts)			Qualification	2,09,500/-
		. ,		

Interested candidates may visit www.ugvcl.com/careers for detailed advertisement.

Addl. General Manager (HR)

For updating Bank account

documents are required

In addition to details required for

updating email, following details/



Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003 Tel. no.: 011-24360959 Fax: 011-24360241, Email: csntpc@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

Intimation regarding 47th Annual General Meeting (AGM) and Record Date for payment of Final Dividend It is hereby informed that the 47th AGM of NTPC Limited will be held on Wednesday, 30th August, 2023

at 10:30 A.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in line with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and other relevant circulars including circular dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'). In line with aforesaid MCA Circulars and SEBI circular dated 5th January, 2023, Annual Report along with notice of 47th AGM will be sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Company / depository participant/depository.

Notice and Annual Report 2022-23 will also be made available on the Company's website www.ntpc.co.in and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Manner of casting vote(s) through e-voting: In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014. the Resolutions for consideration at the 47th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting during the AGM. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means. Shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the meeting may participate in the AGM by following instructions given in the

Manner of registering / updating email ID & Bank Details: Shareholders who have not registered their email IDs and Bank Account details are hereby requested to register the same in following manner: For shareholders Please send a request letter signed by the first holder with following details to the holding shares in RTA of the Company by post at M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at 3rd Floor, Beetal House, 99, Madangir, Delhi-110062 or through email at ntpc@beetalfinancial.com with following details / documents:

	1. 0. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	l. =			
	Self attested copy of AADHAR/Driving License/	1. Bank Account details like Bank			
	Voter Card/Passport	Account number, Name of the			
		Bank & Branch, MICR Code/			
	(Signature should match with the specimen	IFSC Code,			
	signature available with the Company/RTA)	2. Cancelled Cheque bearing			
		the name of the Member or first			
		holder, in case shares are held			
		jointly			
For shareholders	Shareholders can update email IDs, mobile num	bers and Bank Account details by			
holding shares in	contacting their respective Depository Participants as per the process advised by				
Demat Mode	them.				
Boosed Data for B	Journant of Final Dividend				

Demat Record Date for Payment of Final Dividend

For updating email ID

2. Name of Shareholder

3. Self-attested copy PAN

1. Folio No.

Notice is hereby given that the Company has fixed Friday, 11th August, 2023 as the Record date for the purpose of payment of final dividend for the financial year 2022-23, if approved by the Shareholders in the upcoming Annual General Meeting of the Company.

Date: 22.07.2023

Place: New Delh

Shareholders may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act") as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 is taxable in the hands of the Shareholders. The Company is, therefore, required to deduct tax at source at the time of payment of dividend to the Shareholders. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable. Shareholders are requested to submit necessary forms/documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act up to 18th August 2023. The necessary documents, as applicable, are required to be emailed at tdsdiv@ntpc.co.in and dividend.ntpc@taxcpc.com, to enable the Company to determine the appropriate TDS rates. For the detailed process, please visit website of the Company https://www.ntpc.co.in/investor-updates/dividend-tds-communication

In case of any further assistance in this regard, Shareholders may contact RTA or Company at above mentioned email/address

For NTPC Limited Arun Kumar

Company Secretary

Leading the Power Sector

DIPR/c/10323/2023

ग्रामीणवृत्त-उदयपुर

जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

[CIN No. L17111UP1974PLC003979] पंजीकृत कार्यालयः 19वाँ कि.मी., हापु-बुलन्दशहर गेड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408, टेली. नं. 05732-228057 कार्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, फैक्स: (011) 40322129 टेली: 011-40322100, ई-मेल: cs_jpoly@jindalgroup.com, वेबसाईट: www.jindalpoly.com

शेयरधारकों के लिये सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कम्पनी की में इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली. 2016 (''आईईपीएफ नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 124(6) के अनुपालन में ऐसे सभी शेयरों को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण ''आईईपीएफ प्राधिकरण'') की डीमैट खाता में कम्पनी को अंतरित करना है जिसके लिये लगाताः 7(सात) वर्षों या अधिक से लाभांश का भृगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

आईईपीएफ नियमावली के अनपालन में कम्पनी ने संबंधित ऐसे शेयरधारकों को आवश्यक सचना भेज दी है जिन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 के लिये लाभांश का भगतान/एन्कैश नहीं कराया गया है तथा जिनकी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना हैं। ऐसे शेयरधारकों के विवरणों को कम्पनी की वेबसाईट https://www.jindalpoly.com/download-reports पर अपलोड कर दिया गया है तथा शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित की जाने वाली शेयरों की जांच कम्पनी की वेबसाईट को देखकर कर सकते हैं।

मंबंधित शेयरधारकों में आगृह है कि कम्पनी के शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थात के फिनटेक टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनांसियल डिस्ट्क्ट, गाछीबावली, हैदराबाद-500032, ईमेलः einward.ris@kfintech.com, फोनः 040-67162222/1517 के पास आवेदन कर वित्त वर्ष 2013-14 के लिये दावा-रहित लाभांश का दावा करें। दावा-रहित लाभांश का दावा करने के लिये आवेदन का प्रारूप कम्पनी की उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। यदि 4 नवम्बर, 2023 को या पर्व केफिनटेक टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड को दावा-रहित लाभांश के लिये कोई वैध दावे प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनसार संबंधित शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर देगी। संबंधित शेयरधारकों द्वारा भौतिक पद्धत्ति में धारित ऐसे शेयरो के संदर्भ में मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जाएंगे।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि ऐसे शेयरों पर यदि कोई हो, उपचियत लाभों सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित शेयरों को आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद वे उसे आईईपीएफ प्राधिकरण वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। यदि इस विषय पर शेयरधारकों की कोई आइश्पाएन आपन्तराच जान कार्या कर राज्य है। जिज्ञासा हो, वे कम्पनी के शेयर अंतरण एजेन्ट से सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश से

तिथि: 21 जुलाई, 2023 स्थान: नई दिल्ली

ऋणधारकों का नाम

्सह-ऋणधारक श्री हर प्रकाश, श्री गौरव सिंह

श्रीमती कौशल्या, जीके कपिल फर्नीशिंग (प्रॉस्पेक्ट नं. 896699 एवं 899541 एवं 928068)

श्री राजेश, श्रीमती रेण

फार्मेसी, श्रीमती शशि नाग

श्री योगेश कालरा, श्रीमती कीर्ति (प्रॉस्पेक्ट नं

श्री राज कुमार श्रीवास्तव श्रीमती सारिका राज,

स्थानः दिल्ली, तिथिः 24.07.2023

मतदान का आरंभ मतदान की समाप्ति

अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है।

.. लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं।

तारीख : 24 जुलाई 2023 स्थान : आबू रोड

कम्पनी सचिव एसीएस: 15108

कब्जा सूचना- (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम-8(1)

्रियोश कि विचीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूर्विमीण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिमत्तिम् 2002 के अंतर्तत आईआईएरुएल होम फाहनांत लि. (पूर्व में इंडिया इम्फोलाइन हार्टिसग फाहनांत लि. (आईआईएरुएलएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पटित पारा 13(12) के अंतर्ता प्रदत्त शक्तियों का प्रतेश करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में आधारताक्षरी ने मांग युवना जारी कर वहाँ नीचे यांगित ऋणधारकों सह-ऋणधारकों को उनत मुचना को प्रति को तिथि से 60 दिनों के शिलर सूचनों में जीवित की विस्तार विद्या था। ऋणधारक इस राशि को वापस लीटाने में विफल रहे, अतः एतदुहारा ऋणधारक, तथा आम् जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने उन्ह तियमावली के नियम 8 के साथ

मिटत अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्मति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्मति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्मतियों का किसी भी तरह का व्यवसा

वहाँ नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के लिये आईआईएफएल एचएफएल के चार्ज के अधीन होगा। ''ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक विक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर

किसी भी समय वहन की गई सभी लागतीं, चार्जेज एंच खर्चे के साथ ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकाये का मुगतान कर देते हैं तो ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभू परिसम्पत्ति की विक्री अथवा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा कोई कदम नहीं उठाई जाएगी

हस्ता./

वैशाली सिंह

कुल बकाया देवता (रु.)

कुल बकाया देवता (रू.) 896699 के लिए रु. 3063500/-(रु. तीस लाख तिड़ेसट हजार पांच सी मात्र), 899541 के लिए रु. 91711/-(रु. इक्यानवे हजार सात सी ग्यास्ट मात्र) तथा 92806 के लिए रु. 4,97,657/-(रु. चार लाख सत्तानवे हजार छ: सी सत्तावन मात्र)

मात्र) एवं 933682 के लिए र

1,94,433/- (रु. एक लाख चौड़ानवे

सत्ताईस लाख निन्यानवे हजार सात

4109193 /- (रु. इकतालिस लाख

. 2220761/- (रु. बाईस लाख बीस हजार सात सौ इकसठ मात्र)

इक्यासी हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

⇔odern

मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय : तलहेटी, ग्राम करोली, तहसील – आबूरोड, जिला – सिरोही–307510, CIN: L31300RJ1982PLC002460

ई-मेल : compliance@moderninsulators.com, वेबसाईट : www.moderninsulators.com; टेलिफोन : 02974-228044

सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना और उनकी ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया

मॉर्डर्न इंस्_{ले}टर्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 110 के साथ पि

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के अनुसार एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्

परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र नं. 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र नं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020 ामान्य परिपत्र नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, सामान्य परिपत्र नं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और सामान्य परिपत्र नं. 20/2021 दिनांक

दिसंबर, 2021 ("एमसीए परिपत्र") के अनुसार कंपनी ने दिनांक 19 जून 2023 की डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतदान ("ई—मतदान / रिमोट ई—मतदान") के ज़रिए प्राप्त करने हेत् उक्त डाक मतपत्र सूचना को 24 जुलाई 2023 को ईमेल द्वार उन सभी सदस्यों / हितधारकों को भेज दी है, जिनके नाम निर्धारित तिथि यानी शुक्रवार, 21 जुलाई 2023 को सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरीज़ के रिकॉर्ड पर अंकित हैं और जिनके ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट / डिपॉज़िटरीज़ / कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट के पास पंजीकृत हैं। डाक मतपत्र की सूचना और मतदान के निर्देश, कंपनी की वेबसाइट **www.moderninsulators.com** पर और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटे (सीडीएसएल) की वेबसाइट यानी **www.evotingindia.com** पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों के संगत अनुभागों पर भी उपलब्ध है, जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि **www.bseindia.com l** जिन शेयरधारकों को उक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, डाक मतपत्र सचना की भौतिक कॉपी, डाक मतपत्र फॉर्म और पहले से चकता—शल्क वाले व्यावसायिक जवाब लिफाफे

शेयरधारकों को डाक मतदान के लिए नहीं भेजे गए हैं और शेयरधारकों को उनकी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई—मतदान प्रणाली के ज़रिए ही देनी होगी

जैसा कि आवश्यक है, कंपनी सभी सदस्यों को ई–मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकें। कंपनी ने ई–मतदान क

सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है ताकि सदस्यों को उनके वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

से डालने की सुविधा दी जा सके। मतदान के अधिकार का निर्धारण, तय निर्धारित तिथि पर सदस्य (सदस्यों) के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर किया

इस अवधि के दौरान, कंपनी के ऐसे सदस्य, जो तय निर्धारित तिथि पर यानी शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को भौतिक स्वरूप में या डीमटेरियलाइज़ स्वरू . इक्विटी शेयर के धारक हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। गुरुवार, 24 अगस्त 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद ई—मतदान की अनुमति नहीं होगी

निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री अंशिका गुप्ता (एफसीएस 7733; सीओपी नं. 8587)

अंशिका गप्ता एण्ड एसोसिएटस, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को संवीक्षक के तौर पर नियक्त किया है। संवीक्षक ने उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाने क

डाक मतपत्र/ई—मतदान के परिणाम, रिमोट ई—मतदान समाप्त होने के दो कार्य दिवस के अंदर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट : साथ कंपनी की वेबसाइट www.moderninsulators.com और सीडीएसएल की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर दिखाए जाएंगे औ

उन शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई—मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए. जिन्हें मान्य ईमेल आईडी की अनपलब्धता की वजह से डाक मतपत्र क

सूचना नहीं भेजी जा सकी है, कंपनी ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के साथ ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के अनुरूप ईमेल आईडी के रजिस्ट्रेशन के

अ. भौतिक शेयरधारकों के लिए — कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉर्प

ब. **डीमेट शेयरधारकों के लिए** – कपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें।

पदि आपके पास सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई–वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप

हलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश डाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडियां,

लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुम्बई — 400013 को संबोधित किया ज

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022–23058738 और 022–23058542 / 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

के साथ जो ई—वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मिटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022–23058542 / 43 पर कॉल करें ।

स. व्यक्तिगत डीमेट शेयरघारकों के लिए – कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर अपडेट करें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी

(आगे व पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी)

जाएगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कि उस निर्धारित तिथि को सदस्य नहीं है, डाक मतपत्र की सूचना को केवल जानकारी हेतु माने।

ई—मतदान द्वारा डाक मतपत्र पर मतदान की सुविधा निम्नलिखित अवधि के लिए उपलब्ध होगी : : बुधवार, 26 जुलाई 2023 (प्रातः 09:00 बजे)

गुरुवार, 24 अगस्त 2023 (शाम 5:00 बजे)

इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–मतदान प्रणाली को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

उनकी सूचना बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) को दी जाएगी।

investors@beetalfinancial.com पर ईमेल द्वारा।

ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

नौ हजार एक सौ तिड़ानवे मात्र)

अन्टानवे हजार एक

सौ पैसठ मात्र) एवं 977091 के लिए

हजार चार सौ तैंतीस मात्र)

सूचना तिथि

14 जून 2022

2023

15 मई

17 अप्रैल.

27 जन.

2023

20 जुलाई 2023

20 जुला

2023

19 जुलाई 2023

20 जुलाई 2023

"IMPORTANT"

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण)

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : मकान सं. 824, माप 80 वर्ग चार्ड्स, रकवा नं. 80, एण्डरन लाल डोरा, ग्राम चक्करपुर, तहसील वजीराबाद, गुड़गांव–122002, हरियाणा, भारत

के अधिकार के बिना खसरा नं. 810 में, सम्पत्ति सं. डी-20/9 का भाग, भूमि एरिया माप 900 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 1296 वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 1620 वर्ग फीट, खसरा-810 जो ग्राम गोण्डा गुजरन

खादर, गली-6 की आबादी, विजय कालोनी, उस्मानपुर, शाहदर दिल्ली-110083, भारत में स्थित

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : खासरा नं. 165, भूमि एरिया 361 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया 988 वर्ग फीट, निर्मित एरिया 1236 वर्ग फीट ग्राम सैनी, ग्रेटर नोएडा, गीतमबुद्ध नगर, एनएम पश्चितक स्कूल वे निकट, उत्तर प्रदेश, भारत-201806

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : प्लॉट नं, 09, प्लैट नं, 203, कार्पेट एरिया 640 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया 792 वर्ग फीट, टीएफ बैंक साइड, खेवता नं, 3435, खसरा नं, 12016/3472/792, 1204/34727792,12015/3435/792, कृष्णा कॉलीनी, गुड़गांव, हिरेयाणा-122001

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : निर्मित प्रथम तल, फ्रान्ट साइड एलएवएस, कार्पेट एरिया माप 574 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया माप 675 वर्ग फीट, यूनिट नं. 17, खसरा नं. 79/10, ग्राम हस्तसाल, नवादा एक्स्टेंशन, ओम विहार, फेज-V, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059,

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : प्लॉट नं. 34ए, कार्पेट एरिया 382 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया 450 वर्ग फीट, यूजी एफ वैक साइड, एलएचएस ब्लॉक-1/गली नं. 31, राजा पुरी, उत्तम नगर, दिल्ली-110059

सम्मत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा : यूजीएफ-101, कार्पेट एरिया माप 1125 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया माप 1250 वर्ग फीट, कवर्ड एरिया माप 783 वर्ग फीट, फ्रान्ट आरएउपार सिंडिकेट किंव्हर्कान् यूजीट रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 50,51,52,69,70,71 खसरा ने. 60 पर निर्मित

अधिक विवरणों के लिये कृपया **णाखा कार्यालय**: 30/30ई, ऊपरी भूतल, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली/ए । सी एवं ए-1 डी, 2रा तल, नोएडा, सेक. 16, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालय**: प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार केज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।



केन्द्रीय विद्यालय आई.एन.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली

निविदा सूचना 2023-24

केंद्रीय विद्यालय आई.एन.ए कॉलोनी नई दिल्ली के द्वारा विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सिविल कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है ताकि विद्यालय में सफेदी, पेंटिंग, प्लास्टर एवं सभी प्रकार की मरम्मत इत्यादि का कार्य कराया जा सकें। निविदा फॉर्म को, रुपए 500 / – के नगद भुगतान या बैंक ड्राफ्ट जो की विद्यालय विकास निधि, केंद्रीय विद्यालय आई.एन.ए. कॉलोनी के नाम से देय हो, जमा करने के उपरांत किसी भी कार्य दिवस में 10:30 AM बजे से 1:00 PM बजे तक प्राप्त किया जा सकता हैं निविदा 24.07.2023 से 10.08.2023 तक उपलब्ध है, जो कि पंजीकृत डाक से 14.08.2023 तक विद्यालय में भेजी जा सकती है, निविदा प्रपत्र तथा प्राप्त निविदाएँ 16.08.2023 को 11:30 बजे खोली जाएगी। अन्य जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट https://inacolony.kvs.ac.in देखी जा सकती है, यदि निविदा के सम्बन्ध में कोई संशोधन होता है तो विद्यालय की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा



केन फिन होम्स लिमिटेड

एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तुल कैनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर 10ए, गुड़गाँव, फोनः Ph.: 0124-2370035, 7625079135

ईमेलः gurgaon@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699 परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियग 8(6) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जात है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, गुरुग्राम शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया ज वुका है, **शीनू गोयल** एवं **संदीप गोयल (उधारकर्ता)** एवं **धीरज कुमार (गारंटर),** की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की 01.04.2021 तक बकाया राशि रु.22,48,696 / – (रुपए बाईर लाख अडतालिस हजार छः सौ छियानबे मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 30.08.2023 को **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है** वहाँ है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य रु. 37,00,000 / — (रुपए सैंतीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि जमा रु.3,70,000/— (रुपए तीन लाख सत्तर हजार मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण कान सं. 2146, खसरा 2930–2931 गली सं. 74 लक्ष्मण विहार फेज 2 गुरुग्राग पिन—122001 परिमाप— 50 वर्ग गज

उत्तरः मकान सं. 2147 पूर्वः रोड

दक्षिणः मकान सं. 2145 पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलक्ष्य करार्द गर्द हैं। ई—नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com देखें।

तिथिः 22.07.2023

प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेर



The Indian Express. For the Indian Intelli

♦ The Indian **EXPRESS**

मौजूदा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

फॉर्म नंबर आईएनसी -19

सूचना

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार]

- नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप–धारा (4) (ii) के अनुसरण में, मैसर्स नई धारा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार, दिल्ली को कंपनी अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत जारी लाइसेंस को रद्द करने के लिए एक आवेदन किया गय है। लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी को फाउंडेशन की जगह अपने नाम के आगे "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोडना होगा ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4) (ii) के तहत प्रावधान के अनुसार लाइसेंस के निरसन के बाद कंपनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः
- स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, चिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कला प्रबंधन और शिक्षा के किसी भी अन्य संकाय जैसे सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देन और स्थापित करना, विकसित करना, निर्माण करना, प्रशासन करना और चलाना और प्रबंधन और कंप्युटर प्रशिक्षण संस्थानों को चलाना और हिंदी साहित्य को बढावा देना ।
- a) शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर शैक्षिक परामर्श प्रदान करना / बढावा देना. स्कलों. कॉलेजे और केंद्रों को भारत और विदेशों में शैक्षिक संस्थानों की ओर से छात्र भर्ती करने के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक और शौक संस्थानों, केंद्रों, कॉलेजों, स्कलों, प्ले स्कलों, लर्निंग सेंटर और अन्य संस्थानों की स्थापना, प्रदान, रखरखाव और संचालन करना। इंजीनियरिंग, मेडिकल पैरा-मेडिकल, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, विपणन, प्रबंधन, कंप्यटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सचन प्रौद्योगिकी, खेल और किसी भी अन्य प्रकार की शिक्षा और खारथ्य के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेजों, स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन के संबंध में व्याख्यान, प्रदर्शन सेमिनार, प्रदर्शनियां, कक्षाएं, बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना छात्रों को मौखिक रूप से य डाक के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। भारत में पूर्व—प्राथमिक और प्राथमिक बच्चों के लिए डे केयर सेंटर और बच्चों के लिए शिशु गृहों की स्थापना और संचालन करना, नृत्य, संगीत नाटक, पेंटिंग, गायन, खेल जैसी कलाओं में गतिविधियों को प्रदान करने के लिए प्राथमिक छात्रों के लिए सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र स्थापित करना, शिक्षा के संबंध में सहयोग, फ्रेंचाइर्ज़ समझौते करना और ऐसे स्कूलों, कॉलेज आदि की स्थापना के लिए सलाहकार / सलाहकार
- शिक्षा, शिक्षण, कोचिंग, परामर्श, सेवा प्रदाता, सुविधाप्रदाता, थिंक ग्रुप, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों, प्रकाशन, मुद्रण, सामाजिक कल्याण, संघ, प्रचार, विज्ञापन तकनीकी / गैर-तकनीकी नौकरियों कॉलेज केंद्र संस्थान फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी सहयोगी संयक्त उद्यम की गतिविधियों को बढ़ावा देना. शुरू करना, निष्पादित करना, कार्यान्वित करना सहायता करना और सहायता करना । नोडल एजेंसी, छात्र सुविधाप्रदाता, ऑफ कैंपस, अध्ययन केंद्र, विस्तार केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, शैक्षिक सामग्री की बिक्री / खरीद. वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, आधारित, दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा प्रमोटर, सलाहकार, भर्तीकर्ता प्रति सेवा. छात्र आप्रवासन, सरकारी 🗸 सभी प्रकार की एनजीओ सेवाएं. मीडिया सेवाएं. मेले सांस्कृतिक गतिविधियां, भाषाएं, निरीक्षण, तकनीकी रिपोर्टिंग, दस्तावेज, परीक्षण, रिपोर्टिंग थिंक टैंक, प्रेरणा, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया विकास, शिक्ष उपकरण और किट, विकास और विनिर्माण, व्यापार और बिक्री और खरीद, कंसाइनर कंसाइनरी, विदेशी शिक्षा परियोजनाएं, छात्र आव्रजन, विदेशी विश्वविद्यालय / भारत और विदेश, स्कूल, कॉलेज वीजा और पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करना।
- छात्रों और अन्य लोगों के प्रशिक्षण, शिक्षा और निर्देश के लिए व्यावसायिक और शौक संस्थानों केंद्रों, कॉलेजों, स्कूलों, प्ले स्कूलों, लर्निंग सेंटर और अन्य संस्थानों को बढ़ावा देना और स्थापित करना, प्रदान करना, बनाए रखना और चलाना जो इसके संबंध में व्याख्यान, प्रदर्शन, सेमिनार प्रदर्शनी, कक्षाएं, बैठकें और सम्मेलनों के वितरण और आयोजन के लिए स्वयं का लाभ उठान चाहते हैं।
- विपणन, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, लेखा, मानव संसाधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा व्यवसाय प्रबंधन तकनीकी फिल्म स्थानीय और विदेशी भाषाओं या किसी अन्य क्षेत्र में शिक्षा तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगठनों के ऐसे अन्य रूपों को बढ़ाव देना और स्थापित करना चलाना प्रबंधित करना व्यवस्थित करना उपक्रम करना प्रायोजित करना, स्कुलों, कॉलेजों, संस्थानों का निर्माण करना, और कार्य करना।
- च) स्कूलों और कॉलेजों में विदेशों में छात्रों को प्रवेश को बढ़ावा देना और स्विधाजनक बनाना और विदेशों से विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करना और परामशं प्रदान करना और कंप्यूटर ब्यूरो, तकनीकी जनशक्ति सेवाएं, प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने वाली शिक्षा सेवा, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, फ्रेंचाइजी नियुक्त करना, भारत या विदेश में सभी प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों की एजेंसी और फ्रेंचाइजी लेना;.

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और लेखों की एक प्रति **एन –154, ग्राउंड फ्लोर, पंचशील** पार्क, नई दिल्ली –110017, दिल्ली, भारत में देखी जा सकती है ।

नोटिस यह दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, या निकाय कॉर्पोरेट, जो इस आवेदन पर आपत्ति जताता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर दिल्ली में रजिस्ट्रार को कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019, दिल्ली, भारत, को संबोधित एक पत्र द्वार ऐसी आपत्ति से अवगत करा सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को एन -154, ग्राउंड **फ्लोर, पंचशील पार्क, नई दिल्ली –110017, दिल्ली, भारत** पर भी अग्रेषित की जाएगी।

दिनांक : 23 जुलाई 2023

आवेदकों के नार 1. प्रमथ राज सिन्हा 3. संदीप जैन



एन टी पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) सीआईएन: L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 दूरभाषः 011-24360959, फैक्सः 011-24360241, ई-मेलः csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइटः www.ntpc.co.in

47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा अंतिम लाभांश के भुगतान हेतु

रिकॉर्ड तिथि के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनटीपीसी लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 28 दिसंबर, 2022 को जारी परिपत्र सहित अन्य संगत परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुरूप बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को प्रातः 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या एम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्ने अन्य ऑद्धियो विजयल साधनों (ओए दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार 47वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी / डिपॉजिटरी के साथ

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, 47वीं एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों को एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। ऐसे शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है और एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालना चाहते हैं, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

इंमेल आईडी और बैंक विवरण पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीकाः जिन शेयरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत करें:

भौतिक रूप में कृपया प्रथम धारक द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र निम्नलिखित विवरण के साथ कंपनी के शेयर रखने वाले आरटीए मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, बीटल शेयरधारकों के लिए हाउस, 99, मदनगीर, दिल्ली-110062 को डाक द्वारा या निम्नलिखित विवरण / दस्तावेजों के

साथ ntpc@beetalfinancial.com पर इंमेल के माध्य	ाम से भेजें:
ईमेल आईडी अद्यतन के लिए	बैंक विवरण अद्यतन के लिए
1. फोलियो संख्या	ईमेल अपडेट करने के लिए आवश्यक
2. शेयरधारक के नाम	विवरण के अलावा, निम्नलिखित
3. स्व–अभिप्रमाणित पैन की कॉपी	विवरण / दस्तावेज आवश्यक हैं:
4. स्व—अभिप्रमाणित आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर	1. बैंक खाता विवरण जैसे बैंक खाता
कार्ड / पासपोर्ट की कॉपी	संख्या, बैंक और शाखा का नाम,
(हस्ताक्षर कंपनी / आरटीए में उपलब्ध नमूने हस्ताक्षर	एमआईसीआर कोड / आईएफएससी
से मिलना चाहिए)	कोड,
	2. यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे गए
	हैं तो सदस्य या प्रथम धारक के नाम
	वाला निरस्त चेक

डीमैट रूप में शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शेयर रखने वाले|संपर्क करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण अपडेट कर सकते हैं।

अंतिम लाभांश भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए शुक्रवार 11 अगस्त, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निश्चित किया है, यदि कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

लाभांश पर टीडीएसः

दिनांकः 22.07.2023

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित शेयरधारकों का लाभांश कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को शेयरधारकों को लामांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता है। हमें उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जैसा लागू हो, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 18 अगस्त, 2023 तक आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक फॉर्म / दस्तावेज जमा करें। कंपनी को उचित टीडीएस दरें निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए tdsdiv@ntpc.co.in और dividend.ntpc@taxcpc.com पर ईमेल किया जा सकता है। विस्तृत प्रक्रिया के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट https://www.ntpc.co.in/investor-updates/dividend-tds-communication पर जाएं।

इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए, शेयरधारक आरटीए या कंपनी से उपरोक्त ईमेल / पते पर संपर्क _C कर सकते हैं।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड

अरुण कुमार

कंपनी सचिव

AL CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालय : प्रथम तल, विजया भवन, भूखंड सं. 17,

बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली-11000 अधिग्रहण सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(१) के अंतर्गत)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, विजया भवन, भूखंड सं** 17, **बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली – 110001** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परि के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. सं. 54 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 1**8—दिसंबर—2021** निर्गत की थी, जिसमें एस.के. मेडिकोज, स्वामी सतीश कमार गर्ग श्रीमती शिखा गर्ग ललिता देवी के माध्यम से के ऋणकर्ताओं / सह—ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि **रु. 79,91,458/— (रुपये उन्यासी लाख इक्यानबे हजार चार सौ अट्ठावन** मात्र) का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएद तदद्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यह

ऋणकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 79,91,458/— (रुपये उन्यासी लाख इक्यानबे हजार चार सौ अट्ठावन मात्र)** की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेत् आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, विजया भवन भूखंड सं. 17, बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली — 110001 के प्रभाराधीन होगा।

इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त

मधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **21 जुलाई 2023** को

ऋणकर्ताओं / गारंटरों का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ :

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति : बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो निम्न रूप में हैं : "501, 5वां तल, सी-ब्लॉक में, अधि क्षेत्रफल 2175 वर्ग फुट, जो कि "एपेक्स ग्रीन वैली" के रूप में विदित

आवासीय कॉलोनी में ग्राम प्रह्लाद गढ़ी, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।"

दिनाक: 21-07-2023 स्थान : गाजियाबाद

(आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदर TATA प्राकृत कावालव : । । जा नाजर, जावर प्राची कावर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

माँग सूचना वित्तीय आस्त्रियो के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

जैया कि अभोद्याताथरी ने अभिनियम के तदत टाटा कैपिटल दाउगिंग फादनेंग लिमिटेड (टीग्रीपनाफा) के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदः शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिव उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये ग विवरणों के अनुमार सम्बद्ध सचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत को थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्ष के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन् रस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पनर्भगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभृत

अनुबंध सं.	दायित्वधारी(यों) ⁄विधिक उत्तराधिकारी(यों) ⁄विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रु.*	मांग सूचना की तिथि एनपीए की तिथि
9731703	श्री अंकित जिन्दल	तिथि 11/07/2023 तक राशि रु.	11-07-2023
	(कर्जदार) तथा श्री ओम प्रकाश जिन्दल (सह–कर्जदार)	47,98,067/- (रुपये सैंतालीस लाख अट्ठानबे हजार सड़सठ मात्र)	08-07-2023

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: आवासीय इकाई/फ्लैट संख्या 205 का समस्त भाग, दूसरी मंजिल, माप 1465 वर्ग फीट, टावर लक्सर, सिक्का कामना ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएच-03बी, सेक्टर-143, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित।

TCHH	श्री राजकुमार	11/07/2023 तक, राशि रु. 68,52,408/- (रुपये	11-07-2023
L0362 00010	जसवाल	अड़सठ लाख बावन हजार चार सौ आठ मात्र) ऋण	04-07-2023
00010	(कर्जदार) तथा	खाता संख्या TCHHL0362000100071780 के तहत	
80 &	श्रीमती सीमा जसवाल	आपके द्वारा देय और बकाया तथा रु. 98,73,684/-	
TCHH L0362	्रास्त्रवाल (सह-कर्जदार)	(रुपये अञ्चानवे लाख तिहत्तर हजार छह सौ चौरासी	
00010		मात्र) आपके ऋण खाता क्रमांक	
00725		TCHHL0362000100072536 के अंतर्गत देय और	
36		बकाया है अर्थात कुल रु. 1,67,26,092/- (रुपये एक	
l		करोड़ सड़सठ लाख छब्बीस हजार बानबे मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: इप्लेक्स आवासीय डीडीए फ्लै संख्या 531 (पहली और दुसरी मंजिल) का समस्त भाग तथा हिस्सा, श्रेणी एसएफएस-II, प्लिंथ एरिया माप 90 वर्ग मीटर, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली -110019 में स्थित, बिक्री विलेख पंजीकरण संख्या ७०७६ दिनांक २९/०६/२००९ और रिलीज डीड पंजीकरण संख्या १७१७७ दिनांक 31/12/2012 में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ।

93700	श्री मनीष कुमार	10-07-2023 तक, रु. 2,24,30,910/-	10-07-2023
	(कर्जदार) तथा श्रीमती	(रुपये दो करोड़ चौबीस लाख तीस हजार	08-07-2023
	एकता कुमार	नौ सौ दस मात्र)	
	(सह-कर्जदार)		
10TH -	भारिकोरं क्रक संस्थितो	्रबंधक गंगनियों का विकास आवा	गीम वनीमनने

अपार्टमेंट/फ्लैट नंबर 1201, ब्लॉक बी, 12वीं मंजिल का समस्त भाग तथा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल 4200 वर्ग फुट, 1100 वर्ग फीट के टेरेस सहित, प्रीमियर अर्बन, सेक्टर-15, पार्ट-02, गुड़गांव 122001 (हरियाणा) में स्थित ли од 111*о*

44	(सह-कर्जदार)	100001-114)	
000728	चन्दा देवी	तिरासी मात्र)	
	(कर्जदार) तथा श्रीमती	(रुपये तैंतीस लाख तेरह हजार छह सौ	04-07-20
	। श्राप्रभास कुमार भारता।		12-07-20

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: फ्रीहोल्ड बिल्टअप आवासी संपत्ति के दक्षिणी हिस्से के तीसरी मंजिल परिसर (छत/टेरेस अधिकार के साथ) का समस्त भाग तथा हिस्सा. मकान नंबर 263 है. क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (30'x30'). उसके अंतर्गत भिम के आनुपातिक अधिकार के साथ, खसरा नंबर 31/21,35/1 में शामिल, ग्राम ख्याला में स्थित, इलाका चांद नगर, नई दिल्ली 110018, बिक्री पत्र में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: पूर्व - संपत्ति संख्या 264, पश्चिम - संपत्ति संख्या 262, उत्तर - संपत्ति संख्या 263 का शेष भाग, दक्षिण-सड़क 20 फीट।

TCHI	श्री मनीष कुमार	दिनांक 12/07/2023 तक राशि रु. 31,05,251/-	13-07-2023
N039	सिंह (कर्जदार)	(रुपए इकतीस लाख पांच हजार दो सौ इक्यावन मात्र)	04-07-2023
90001 00094	तथा श्रीमती	आपके द्वारा ऋण खाता 10152407 के अंतर्गत देय एवं	
160 &	प्रियंका सिंह	बकाया है तथा राशि रु. 6,84,524/- (रुपये छह लाख	
TCHI	(सह-कर्जदार)	चौरासी हजार पांच सौ चौबीस मात्र) ऋण खाता संख्या	
N039		TCHIN0399000100094160 के तहत देय और	
90001		बकाया है और रु. 8,70,279/- (रुपये आठ लाख	
00167 913 &		सत्तर हजार दो सौ उन्यासी मात्र) की राशि ऋण खाता	
10152		संख्या TCHIN0399000100167913 के तहत	
407		· ·	
		देय और बकाया है यानी कुल रु. 46,60,054/-	
		(रुपये छियालीस लाख साठ हजार चौवन मात्र)	

प्रतिभत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: ब्लॉक/टावर एन 8 में 11वीं मंजिर पर फ्लैट/यनिट नंबर 1101 (स्वीकृत योजना 12वीं मंजिल के अनसार) का समस्त भाग तथा हिस्सा कल सपर एरिया 1345 वर्ग फीट है, सेक्टर टेक जोन IV ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबद्धनगर-(उ.प्र.) में स्थित प्लॉट नंबर जीएच-08 बी पर निर्मित 'रॉयल नेस्ट' में स्थित, जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

201084	श्री सोमनाथ तालुकदार	12/07/2023 तक, रु. 38,44,375/-	13-07-2023
	(कर्जदार) तथा श्रीमती	(रुपये अड़तीस लाख चवालीस हजार	08-07-2023
	प्रियंका तालुकदार	तीन सौ पचहत्तर मात्र)	
	(सह–कर्जदार)		

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: आवासीय इकाई क्रमांक टीए-150 का समस्त भाग तथा हिस्सा, 15वीं मंजिल, माप सुपर एरिया 1575 वर्ग फीट, टावर ए, ब्लॉक अरन्य रेजीडेंसी, प्रोजेक्ट द अरन्या, प्लॉट नं. जीएच-02, सेक्टर-119, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित।

	सुश्री अंजलि मलिक	तिथि 15/07/2023 तक रु.	15-07-20
560	(कर्जदार) तथा श्रीमती	30,22,564 /- (रुपये तीस लाख बाईस हजार पांच	04-07-20
18	तजनी (सह-कर्जदार)	सौ चौंसठ मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः आवासीय भूखंड संख्या ए - 0690 क समस्त भाग, ब्लॉक - ए, माप 336.12 वर्ग मीटर. (402 वर्ग गज), ग्राम रायपुर और कुमासपुर, सेक्टर 08, पार्सवनाथ कॉलोनी के नाम से जाने जाना वाला इलाका, तहसील और जिला सोनीपत (हरियाणा) में स्थित, बिक्री पत्र में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: - उत्तर -12 मीटर चौड़ा,

दक्षिण- प्लॉट नंबर 700, पूर्व- प्लॉट नंबर 691, पश्चिम- प्लॉट नंबर 689।

"उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भृगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामों के लिए पुर्ण रू से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल

तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा। तिथि : 24.07.2023 ह./- अधिकत प्राधिकार्र स्थान : दिल्ली कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

डीन : 06470710

मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड के लिए

(श्रेयांश सचिन रंका) निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

